



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 135]  
No. 135]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1981/चैत्र 13, 1903  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 1981/CHAITRA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.वि. 277(अ)—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम, 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मध सं. 1 की उपमध (1) के अन्तर्गत आने वाली और चीनी वर्ष 1980-81 से और उसके पश्चात् किसी नए चीनी कारखाने द्वारा या किसी विस्तार परियोजना चीनी कारखाने द्वारा उत्पादित तथा प्रोत्साहन स्कीम के अधीन अतिरिक्त हक के रूप में निकासी की गई चीनी की उस पर उच्चगृहणीय उतने उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है जितना लेवी चीनी के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3-ग) के अधीन समय-समय पर अवधारित कीमत के आधार पर

क्रमशः साढ़े आठ प्रतिशत और सवा चार प्रतिशत पर प्राक्कलित उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से अधिक है।

स्पष्टीकरण :—

इस अधिसूचना में,—

- (1) "प्रोत्साहन स्कीम के अधीन अतिरिक्त हक" से ऐसी स्कीम अभिप्रेत है जिसके अधीन पूर्वोक्त चीनी निदेशालय द्वारा चीनी निम्नवत् की जाती है ;
- (2) "लेवी चीनी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्पित ऐसी चीनी अभिप्रेत है, जिसका आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ब) के अधीन किए गए आदेश के अधीन विक्रय किया जाना है ;
- (3) "नया चीनी कारखाना" या "विस्तार परियोजना चीनी कारखाना" से मुख्य निवेशक, चीनी निदेशालय खाद्य विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उस रूप में प्रमाणित चीनी कारखाना अभिप्रेत है।
- (4) "चीनी वर्ष" से अक्टूबर मास के पहले दिन से आरम्भ होने वाली और अगले वर्ष के सितम्बर मास के तीसरे दिन समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 63/80, तारीख 31 मई, 1980 में जलविद्युत कोई बात इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली चीनी को लागू नहीं होगी।

[सं. 99/ 81-के.उ.शू./फा. सं. 14/31/80-के.उ.शू.-1]

आर. देब, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1981

### CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 277(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) the Central Government hereby exempts sugar, falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and produced from the sugar year 1980-81 and thereafter by a new sugar factory or an expansion project sugar factory and cleared as additional entitlement under the Incentive Schemes, from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty and the additional duty calculated at eight and a half

per cent and four and a quarter percent respectively, on the basis of the price determined by the Central Government from time to time under sub-section (3c) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) for levy sugar.

### EXPLANATION

In this notification,—

- (1) "Additional entitlement under the Incentive Scheme" means the scheme under which sugar is released by the Directorate of Sugar ;
- (2) "Levy sugar" means sugar required by the Central Government to be sold under an Order made under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);
- (3) 'new sugar factory' or 'expansion project sugar factory' means a sugar factory certified as such by the Chief Director, Directorate of Sugar, Department of Food, Ministry of Agriculture, New Delhi;
- (4) 'Sugar year' means the period of twelve months commencing on the first day of October and ending with the 30th day of September next following.

2. Nothing contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 63/80 dated the 31st May, 1980 shall apply to sugar covered by this notification.

[No. 99/81-CE/F. No. 14/31/80-CX. 1]

R. DEB, Under Secy.